

थाना चरखारी पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित

02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा वरि.उ.नि. सुभाष चन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित हुयी, टीम ने थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2023 धारा 323/304/504 भादवि से संबंधित दो नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1.विष्णु रैकवार पुत्र वंशीलाल रैकवार उम्र करीब 58 वर्ष 2.राजेन्द्र रैकवार पुत्र वंशीलाल रैकवार उम्र करीब 60 वर्ष निवासीगण मु0 धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा, जिनको थाना क्षेत्र के रामनगर तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. वरि.उ.नि. सुभाष चन्द्र तिवारी
2. का.राममिलन सिंह
3. का.नितिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. विष्णु रैकवार पुत्र वंशीलाल रैकवार उम्र करीब 58 वर्ष
2. राजेन्द्र रैकवार पुत्र वंशीलाल रैकवार उम्र करीब 60 वर्ष
निवासीगण मु0 धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 09.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह मय हमराही महिला आरक्षी पिकी यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम चुरारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक नफर अभियुक्ता संगीता पत्नी भारत कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम चुरारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर कच्ची देशी अबैध शराब नाजायज बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 12/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता -

संगीता पत्नी भारत कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम चुरारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामद माल का विवरण:-

एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर कच्ची देशी अबैध शराब नाजायज गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. चन्द्रशेखर सिंह
2. म०का० पिकी यादव



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक 10.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों 55 के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस